



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Hof

सं० 6]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 9, 2002 (माघ 20, 1923)

No. 6]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 9, 2002 (MAGHA 20, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2002

जी.एस.आर. सं. 1/2002--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), 1970(1970 का 5)/1980(1980 का 40) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया* बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्र सरकार की पूर्ण अनुमति से, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया* बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 में और संशोधन करके निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात्--

- (1) ये विनियमन युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियमन, 2001 कहलाएंगे।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) विनियमन, 1995 में, विनियम 28 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

28. अधिवर्षिता पेंशन

अधिवर्षिता पेंशन उस कर्मचारी को मंजूर की जाएगी जो सेवा विनियमों या समझौतों में उल्लिखित अधिवर्षिता आयु पर पहुंचने पर सेवानिवृत्त हो गया है।

फिर भी, 1 सितम्बर, 2000 से पेंशन ऐसे कर्मचारी को भी मंजूर की जाएगी जो अधिवर्षिता आयु पर पहुंचने के पूर्व सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनता है, लेकिन यह सरकार के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन हेतु बनाई गई किसी योजना के अनुसार न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा करने के पश्चात् ही होगा।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय बैंक संघ ने, भारत सरकार से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात्, 31.08.2000 को सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मॉडल स्वीच्छक सेवानिवृत्ति योजना (बी.आर.एस.) परिचालित की थी। योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था थी कि जिस कर्मचारी ने 15 वर्ष की सेवा पूरी की है वे योजना के लिए पात्र हैं। पेंशन विनियमन में मौजूद उपबंधों के अनुसार, केवल वे कर्मचारी, जिन्होंने 20 वर्ष की अर्हता सेवा के पश्चात् स्वीच्छक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है और प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु लिखित रूप में न्यूनतम 3 महीने की नोटिस दी है, पेंशन लाभ के लिए पात्र हैं। पेंशन विनियमन के उपर्युक्त प्रावधानों के पात्रता मानदंड तथा लाभ, 31.08.2000 को परिचालित स्वीच्छक सेवानिवृत्ति

योजना के अधीन किए गए विचार से भिन्न व अलग हैं। लेकिन, पेंशन विनियमन में उस सदस्य कर्मचारी को पेंशन लाभ प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है जो ऐसी विशिष्ट योजना के अधीन अधिवर्षिता आयु पहुंचने के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि विशिष्ट योजना(ओं) के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले पेंशन निधि के सदस्यों को यथानुपात पेंशन लाभ उपलब्ध कराया जाए।

2. अतः, यह आवश्यक है कि संशोधन 1 सितम्बर, 2000 से प्रभावी बनाया जाए ताकि पेंशन निधि के सदस्य तथा 15 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले सभी कर्मचारी पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकें।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वव्यापी प्रभाव देने पर युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी कर्मचारी/अधिकारी, अधिसूचना द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

दीपक कुमार भट्टाचार्य
महाप्रबंधक (कार्मिक)

पाद टिप्पणी :—मूल विनियमन भारत के राजपत्र (असाधारण) में 29.09.1995 को अधिसूचित किए गए थे तथा उपर्युक्त युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 में बाद के संशोधन(नों) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार गजट में प्रकाशित करवाया गया था :

यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कार्मिक विभाग
12, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट

कोलकाता-700001, दिनांक 8 जनवरी 2002

सं. ओ.डी.ए.आर./1/2002—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अंर्जन अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा 2 के साथ पठित धारा 19 द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार की पूर्व म्ब्वीकृति के साथ एतद्वारा यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और

अपील) विनियम, 1976 में पुनः संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बना रहा है, नामतः :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को यूको बैंक अधिकारी, कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2002 कहा जा सकेगा।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 में,

(क) विनियम, 18 की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“18 समीक्षा :

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी पुनर्विलोकन प्राधिकारी अन्तिम आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर किसी भी समय या तो अपनी स्वप्रेरणा से या अन्यथा उक्त आदेश की समीक्षा कर सकता है और यथोचित आदेश पारित कर सकता है यदि उसे किसी ऐसी नई सामग्री या साक्ष्य की जानकारी हुई या उसे जानकारी दी गई जिसे पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सका था या जो समीक्षाधीन आदेश के पारित होने के समय उपलब्ध नहीं था और जो इस मामले की प्रकृति को बदलने का कारण बन सकता था।

बशर्ते :

(i) यदि पुनर्विलोकन प्राधिकारी कोई दंड बढ़ाकर लगाना चाहता हो और वह विनियम 4 के खंड (च), (छ), (झ) या (ज) में बड़े दंड के रूप में निर्दिष्ट हो और इस मामले में विनियम, 6 के अधीन निर्दिष्ट जांच पहले नहीं की गयी हो तो पुनर्विलोकन प्राधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि यह जांच विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार की जाए और उसके बाद जांच के अभिलेखों पर विचार कर यथोचित आदेश पारित किया जाए :

(i) यदि पुनर्विलोकन प्राधिकारी दंड को बढ़ाने का निर्णय करते हैं किन्तु विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार कोई जांच की जा चुकी हो तो पुनर्विलोकन प्राधिकारी कर्मचारी को यह कारण बताओ नोटिस दे सकते हैं कि क्यों न उन पर बढ़ा हुआ दंड लगाया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, आदेश पारित कर सकते हैं।

(ख) विद्यमान अनुसूची की जगह निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः :

सं	वेतनमान/पद का वर्ग	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	पुनर्विलोकन प्राधिकारी
1	2	3	4	5
(क)	कनिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी वेतनमान I और मध्य प्रबन्धन श्रेणी वेतनमान II के अधिकारी और श्रेणी 'न' और 'ग' के अधिकारी जो खरिद प्रबन्धन श्रेणी वेतनमान IV, श्रेणी 'ए' के क्षेत्रीय प्रबंधक के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित शाखाओं/कार्यालयों में पदस्थापित हों और प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारी	क्षेत्रीय प्रबंधक	महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक

1	2	3	4	5
(ख)	मध्य प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान III के अधिकारी और श्रेणी 'ख' और 'ग' के अधिकारी जो वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान IV/ श्रेणी 'ए' के क्षेत्रीय प्रबंधक के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित शाखाओं/ कार्यालयों में पदस्थापित हों और प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारी	संबंधित महाप्रबंधक (परिचालन) के कार्यालय से संबद्ध सहायक महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक
2.	कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान I और मध्य प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान II/III के अधिकारी और श्रेणी 'घ', 'ग' और 'ख' के अधिकारी:--			
क	जो सहायक महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में स्थित शाखाओं/कार्यालयों में पदस्थापित हों और प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारी	क्षेत्र के प्रभारी सहायक महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक
ख	महाप्रबंधक के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में स्थित शाखाओं/कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारी और प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारी	महाप्रबंधक के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालयों के सहायक महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक
ग	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/सेंट्रल स्टाफ कालेज सहित प्रधान कार्यालय में या प्रधान कार्यालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले किसी अन्य कार्यालय/स्थापना में पदस्थापित अधिकारी और प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए एवं निरीक्षण अधिकारी	उप महाप्रबंधक (कार्मिक)	महाप्रबंधक (कार्मिक)	कार्यपालक निदेशक
3.	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान-IV के अधिकारी और श्रेणी 'क' के अन्य अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान-V के अधिकारी/सहायक महा-प्रबंधक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पदस्थापित अधिकारी तथा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारी	महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में/यदि वे अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हों, बोर्ड की समिति
4.	उच्च कार्यपालक श्रेणी/वेतनमान-VI/उप महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में/ यदि वे अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हों, बोर्ड की समिति	बोर्ड
5.	उच्च कार्यपालक श्रेणी/वेतनमान-VII/ महाप्रबंधक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक	बोर्ड की समिति	बोर्ड

कल्याण मुखर्जी
महाप्रबंधक
(कार्मिक)

पाद टिप्पणी--यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 के उक्त विनियमों और अनुसूची में पहले के संशोधनों को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
1	ओडीएआर/1/97	22-08-1997

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय

मुंबई-400 005, दिनांक 11 जनवरी 2002

भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम (संशोधन)

विनियमावली, 2002

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय निर्यात-आयात बैंक का निदेशक मंडल, केन्द्र सरकार के पूर्ण अनुमोदन से, भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 को संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, नामतः :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:-

(1) इन विनियमों को भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम (संशोधन) विनियमावली, 2002 कहा जाएगा।

(2) ये नीचे अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 (इसमें इसको पश्चात् "मुख्य विनियमावली" के रूप में निर्दिष्ट) के विनियम 3 में, उप-विनियम (i), (iv) तथा (vii) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :-

(3) (i) मंडल की बैठक अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में, इस संबंध में अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा नामित एक्ज़िम बैंक के कार्यपालक निदेशक द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम से कम चार बार तथा प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार बुलाई जाएगी।

(iv) मंडल की प्रत्येक बैठक के लिए कम से कम दो सप्ताह की सूचना दी जाएगी और ऐसी सूचना प्रत्येक निदेशक को उसके पंजीकृत पते पर भेजी जाएगी, यदि कोई आपात् बैठक बुलाना आवश्यक हो जाता है तो भारत में प्रत्येक निदेशक को कम से कम तीन दिन की सूचना दी जाएगी जिससे वह बैठक में भाग ले सके। बशर्ते कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में जब ऐसी अल्प-सूचना नहीं दी जा सकती है, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक मंडल की ओर से कार्य करें और मंडल की अगली बैठक में उसकी रिपोर्ट दें।

(vii) मंडल की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति निदेशकों की जानकारी के लिए बैठक की तारीख के बाद पन्द्रह दिनों के भीतर परिचालित की जाएगी और उस बैठक या अगली अनुवर्ती बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।

3. मुख्य विनियमावली के विनियम 5 में, उप-विनियम (i) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :-

5. (i) प्रबंधन समिति की बैठकें, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में, इस संबंध में अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक

द्वारा नामित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय निदेशक द्वारा समय-समय पर एक्ज़िम बैंक के प्रधान कार्यालय में या भारत में ऐसे अन्य स्थान पर, जो बैठकों से संबंधित सूचना में निर्दिष्ट हो, बुलाई जाएगी, तथापि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम से कम छह बैठकें बुलाई जाएंगी। प्रबंधन समिति की प्रत्येक बैठक के लिए सामान्यतया कम से कम दो सप्ताह की सूचना दी जाएगी। यदि कोई आपात् बैठक बुलाना आवश्यक हो जाता है तो ऐसी बैठक के लिए कम से कम तीन दिन की सूचना दी जाएगी। बशर्ते कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में जब ऐसी अल्प-सूचना नहीं दी जा सकती है, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक प्रबंधन समिति की ओर से कार्य करें और मंडल की अगली बैठक में उसकी रिपोर्ट दें।

4. मुख्य विनियमावली के विनियम 7 में, उप-विनियम (2) तथा (3) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

7. (2) ऐसी किसी समिति की बैठकें समय-समय पर एक्ज़िम बैंक के प्रधान कार्यालय में या भारत में ऐसे अन्य स्थान पर, जो बैठक/बैठकों से संबंधित सूचना में निर्दिष्ट हो, बुलाई जाएंगी। यदि कोई आपात् बैठक बुलाना आवश्यक हो जाता है तो ऐसी बैठक के लिए कम से कम तीन दिन की सूचना दी जाएगी। बशर्ते कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में जब ऐसी अल्प अवधि सूचना नहीं दी जा सकती है, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, यदि वे ऐसी समिति के सदस्य हैं और यदि नहीं हैं तो समिति के अध्यक्ष की ओर से कार्य करें और समिति की अगली बैठक में उसकी रिपोर्ट दें।

(3) ऐसी किसी समिति की बैठक के लिए उसकी संख्या के एक तिहाई सदस्यों (उस एक-तिहाई में निहित किसी अंश को एक पूर्णांकित किया जाएगा) या तीन सदस्यों, जो भी अधिक हो, की गणपूर्ति होगी।

5. (क) मुख्य विनियमावली के विनियम 8 के उप-विनियम (1) में "200 रुपये" के शब्दों तथा अंकों को "1,000/- रुपये" के शब्द तथा अंक से प्रतिस्थापित किया जाएगा और "100 रुपये" के शब्दों तथा अंकों को "500/- रुपये" के शब्द तथा अंक से प्रतिस्थापित किया जाएगा, जहां भी ये उप-विनियम में हों।

(ख) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विनियमावली, 2002 के इस विनियम 5 में उल्लिखित संशोधन 9 मई 2000 से प्रभावी माने जाएंगे।

6. (क) विनियम 14 में, उप-विनियम (i) तथा (ii) में "प्रत्येक वर्ष यथा 31 दिसम्बर को तुलन-पत्र" शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द, अर्थात् "प्रत्येक वर्ष यथा 31 मार्च को या प्रत्येक वर्ष में ऐसी अन्य तारीख को, जो केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(ख) मुख्य विनियमावली की अनुसूची I तथा II में तथा अनुसूची I क तथा II क में, तुलन पत्र तथा लाभहानि लेखा के प्ररूप के शीर्षक से तारीख "31 दिसम्बर" हटा दी जाएगी।

(ग) मुख्य विनियमावली की अनुसूची I के भाग के रूप में तुलन-पत्र की अनुसूची के प्ररूप में,

(i) शीर्षक में, तारीख "31 दिसम्बर" हटा दी जाएगी।

(ii) अनुसूची VII के संबंध में, मद 4 के बाद निम्नलिखित मदें, मद 5, नामतः "5, अन्य" के रूप में जोड़ी जाएगी।

(घ) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विनियमावली, 2002 के इस विनियम 6 में उल्लिखित संशोधन 30 दिसम्बर 1988 से प्रभावी माने जाएंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 में उपर्युक्त संशोधन का अनुमोदन किया है, उनके निम्नलिखित पत्र देखिये :

विनियम 3, 5 और 7-पत्र सं. 14(14)/95-आई एफ I (V. II) दिनांकित 16/1/2001 देखिये।

विनियम 8-पत्र सं. 26/2/2000 बी. ओ-1 दिनांकित 9/5/2000 देखिये।

विनियम 14 और अनुसूचियां -पत्र सं. 14(19)/आई एफ I /89

दिनांकित 30/3/1989 देखिये।

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 21 जनवरी 2002

सं. 13-सी.ए./परीक्षा/एम./2002--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 22 के अनुसार दि काउंसिल ऑफ दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि फाउन्डेशन, इन्टरमीडिएट और फाइनल की परीक्षाएं निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों पर होंगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं :

फाउन्डेशन परीक्षा : पाठ्यक्रम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के शेड्यूल "बी" के अनुच्छेद "1-ए" के अनुसार :--

7, 8, 9 और 10 मई, 2002

(प्रातः कालीन सत्र-8 बजे से 11 बजे तक)

भारतीय समयानुसार।

इन्टरमीडिएट परीक्षा : पाठ्यक्रम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के शेड्यूल "बी" के अनुच्छेद "2-ए" के अनुसार :--

ग्रुप-I : 2, 3 और 4 मई, 2002

ग्रुप-II : 6, 7 और 8 मई, 2002

(दोपहर का सत्र-12 बजेकर 30 मिनट से 3 बजेकर 30 मिनट तक) भारतीय समयानुसार।

फाइनल परीक्षा : पाठ्यक्रम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के शेड्यूल "बी" के अनुच्छेद "3-ए" के अनुसार :--

ग्रुप-I : 2, 3, 4 और 6 मई, 2002

ग्रुप-II : 7, 8, 9 और 10 मई, 2002

(प्रातः कालीन सत्र-8 बजे से 11 बजे तक)
भारतीय समयानुसार।

परीक्षा केन्द्र

(I) भारत में परीक्षा केन्द्र :-

1	2	1	2
01. आगरा		02. अहमदाबाद	
03. अजमेर		04. इलाहाबाद	
05. एलेण्डी		06. अलवर	
07. अम्बाला		08. अमृतसर	
09. आसनसोल		10. औरंगाबाद	
11. बंगलौर		12. बरेली	
13. बड़ौदा		14. बेल्गाँव	
15. भीलवाड़ा		16. भोपाल	
17. भुवनेश्वर		18. बीकानेर	
19. कालीकट		20. चण्डीगढ़	
21. चैन्नई		22. कोयम्बटूर	
23. कटक		24. देहरादून	
25. दिल्ली/नई दिल्ली		26. धनबाद	
27. दुर्ग		28. इरनाकुलम	
29. फरीदाबाद		30. गुवाहटी	
31. गाजियाबाद		32. गोवा	
33. ग्वालियर		34. हिसार	
35. हैदराबाद		36. इन्दौर	
37. जबलपुर		38. जयपुर	
39. जलगाँव		40. जम्मू	
41. जमशेदपुर		42. जोधपुर	
43. कानपुर		44. कोल्हापुर	
45. कोलकाता		46. कोटा	

1	2	1	2
47.	कोट्टायाम	48.	लखनऊ
49.	लुधियाना	50.	मदुरई
51.	मंगलौर	52.	मथुरा
53.	मेरठ	54.	मुरादाबाद
55.	मुम्बई	56.	मुजफ्फरनगर
57.	मैसूर	58.	नागपुर
59.	नासिक	60.	नौएडा
61.	पालघाट	62.	पानीपत
63.	पटियाला	64.	पटना
65.	पूना	66.	रायपुर
67.	राजकोट	68.	रांची
69.	रोहतक	70.	सहारनपुर
71.	सेलम	72.	शिमला
73.	सिलिगुड़ी	74.	शोलापुर
75.	सूरत	76.	तिरुचिरापल्ली
77.	त्रिचुर	78.	त्रिवेन्द्रम
79.	उदयपुर	80.	उडुपी
81.	उज्जैन	82.	वाराणसी
83.	विजयवाड़ा	84.	विशाखापटनम
85.	यमुनानगर		

(II) विदेशों में परीक्षा केन्द्र :--

01. दुबई (यू.ए.ई.)

02. काठमांडू (नेपाल)

परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा इंस्टीट्यूट के "सचिव" के पक्ष में होनी चाहिए और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो।

परिषद् अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिए रद्द कर सकती है।

उक्त परीक्षाओं के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों, जो 04 फरवरी, 2002 से उपलब्ध होंगे, पर ही किया जाना चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड

एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 50/- रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध है और नकद भुगतान करने पर 04 फरवरी, 2002 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

उपयुक्त प्रमाण पत्रों और शुल्क के साथ डिमांड ड्राफ्ट लगाकर आवेदन पत्र इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में 28-02-2002 तक पहुंच जाय। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के दिल्ली कार्यालय में 28-02-2002 के बाद 07-03-2002 तक 200/- रुपये विलम्ब के साथ भी स्वीकार किये जायेंगे। 07-03-2002 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के कार्यालय नई दिल्ली में स्वयं भी आकर दिया जा सकता है, या इंस्टीट्यूट के विकेन्द्रित कार्यालयों मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, कानपुर, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, पूना एवं जयपुर में 28-02-2002 तक जमा कराया जा सकता है।

इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है।

विभिन्न परीक्षाओं के लिए देय शुल्क इस प्रकार है :--

फाउन्डेशन परीक्षा--शुल्क 700/- रुपये

इन्टरमीडिएट परीक्षा--शुल्क

दोनों ग्रुपों के लिए 750/- रुपये

केवल एक ग्रुप के लिए 450/- रुपये

*इकाई यूनिट 450/- रुपये

(इकाई यूनिट में चाहे कितने भी पेपर्स हों)

*इकाई "यूनिट" शब्दावली का आशय पेपर्स के उस समूह से है जिसे उन अभ्यर्थियों को, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स इन्टरमीडिएट नियमावली की अनुसूची "बी" के अनुच्छेद-2 "ए" में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व दोनों ग्रुपों को पास नहीं कर सके हैं और एक ही ग्रुप में उत्तीर्ण हुए हैं, परीक्षा में बैठना है और पास करना है।

फाइनल परीक्षा--शुल्क

दोनों ग्रुपों के लिए 900/- रुपये

केवल एक ग्रुप के लिए 550/- रुपये

**इकाई यूनिट 600/- रुपये

(इकाई यूनिट में चाहे कितने भी पेपर्स हों)

**यूनिट शब्दावली का आशय पेपर्स के उस समूह से है जिसे उन अभ्यर्थियों को, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन-1964 के अन्तर्गत शेड्यूल "बी" और

“बी. बी.” पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नवम्बर 1986 से पूर्व एक या एक से अधिक ग्रुप पास कर चुके हैं लेकिन सभी ग्रुप पास नहीं किए हैं को अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के शैड्यूल “बी” के अनुच्छेद “3-ए” में शेष अनुरूप पेपरों में एक साथ बैठना है और पास करना है।

दुबई केन्द्र से बैठने वाले फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाईनल के परीक्षार्थियों को अमेरिकन डालर \$150/- या उसके सममूल्य की भारतीय मुद्रा का शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक पेपर या एक ग्रुप या एक इकाई “यूनिट” या दोनों ग्रुपों में बैठ रहे हों।

काठमांडू केन्द्र से बैठने वाले फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाईनल के परीक्षार्थियों को भारतीय रुपये 1200/- या उसके सममूल्य की विदेशी मुद्रा का शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक पेपर, एक ग्रुप, एक यूनिट या दोनों ग्रुपों में बैठ रहे हों।

हिन्दी के उत्तर लिखने की एच्छकता

फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाईनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम से भी देने की सुविधा दी जाती है। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूचना पत्र में उपलब्ध है।

जगदम्बा प्रसाद

अतिरिक्त सचिव (एस. जी.) (परीक्षा)

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली-110066, दिनांक 25 जनवरी 2002

परिशिष्ट

सं. एच. आर. डी./2/(4)83-खण्ड II--कर्म. भवि. नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5(घ) की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, नियम 7 भ. नि. संगठन आशुलिपिक सेवा नियम, 1998 में निम्नलिखित प्रारंभिक योग्यताओं को सम्मिलित करता है :

नियम 7(ख) के बाद जोड़ा जाए :

प्रारंभिक नियुक्तियां

(i) प्रारंभिक नियुक्ति शर्तों के अन्तर्गत नियुक्त सभी निजी सचिवों को कैडर में सम्मिलित किया जाएगा तथा दिनांक 2-1-1999 से उन्हें निजी सचिव के रूप में नियुक्त समझा जाएगा।

(ii) ग्रेड में नियुक्त वैयक्तिक सहायकों को भर्ती नियमों में छील के अन्तर्गत वरिष्ठता-एवं-चयन पद्धति के अधीन वरिष्ठता कोटे के पदों पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(iii) निजी सचिव के शेष सभी रिक्त पदों को एक विशेष जांच परीक्षा आयोजित कर भरा जाएगा।

(iv) यह परीक्षा अर्हकारी होगी।

(v) निजी सहायकों तथा आशुलिपिकों [(पूर्व में आशुलिपिक III एवं आशुलिपिक II (तदर्थ)] जिन्होंने आशुलिपिक के रूप में 10 वर्ष या उससे अधिक की नियमित सेवा की है, भर्ती नियमों में छील के बाद, परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् उन्हें एक साथ वरिष्ठता एवं चयन आधार पर पदोन्नत दी जाएगी।

(vi) उपर्युक्त रियायतों/छील की अनुमति केवल एक बार दी जाएगी।

अजय सिंह आई. आर. एस

के. भ. नि. आयुक्त

नियम 7(घ) के बाद शामिल किया जाए।

प्रारंभिक नियुक्तियां

(i) सीधी भर्ती और परीक्षा कोटे द्वारा भरे जाने वाले वैयक्तिक सहायक के खाली पद एक बार ही विशेष जांच परीक्षा के माध्यम से भरे जाएं।

(ii) सभी आशुलिपिक [(पूर्व में आशुलिपिक ग्रेड-II (तदर्थ) और आशुलिपिक ग्रेड III सहित)] जिनकी इस ग्रेड में तीन वर्ष या अधिक की नियमित सेवा हो, विशेष जांच परीक्षा के पात्र होंगे।

(iii) ये पद वरिष्ठता एवं चयन पद्धति से भरे जाएंगे।

(iv) यह परीक्षा अर्हकारी होगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आशुलिपिक सेवा नियम 1998 के नियम 7(ख) के अधीन उप खण्ड (1) में उल्लिखित प्रारंभिक नियुक्ति के सिवाय उपरोक्त योग्यता शर्तें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

अजय सिंह आई. आर. एस

के. भ. नि. आयुक्त

***UNITED BANK OF INDIA
HEAD OFFICE**

New Delhi, the 12th January 2002

GSR No. 1/2002.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970)/1980 (40 of 1980)\$, the Board of directors of United Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the United Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995, namely :—

1. (1) These regulations may be called United Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2001.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the United Bank of India (Employees') Regulations, 1995, for regulation 28, the following regulation shall be substituted, namely :—

"28. Superannuation Pension

Superannuation Pension shall be granted to an employee who has retired on his attaining the age of superannuation specified in the Service Regulations or Settlements.

Provided that, with effect from 1st September, 2000 pension shall also be granted to an employee who opts to retire before attaining the age of superannuation, but after rendering service for a minimum period of 15 years in terms of any Scheme that may be framed for such purpose by the Board with the approval of the Government.

Explanatory Memorandum

1. Indian Banks' Association, after taking a no-objection from the Government of India, circulated a model Voluntary Retirement Scheme (VRS) to all the Public Sector Banks on 31.8.2000. The Scheme, inter alia, provided that employees who have rendered 15 years' service are eligible for the Scheme. According to the existing provisions in the pension regulations, it is only employees who opt for voluntary retirement after completing 20 years' of qualifying service and after giving notice of not less than 3 months in writing to the appointing authority, are eligible for pensionary benefits. The eligibility criteria and the benefits flowing out of the above provisions in the Pension Regulations are distinct and separate from that envisaged under VRS circulated on 31.8.2000. There are no provisions available in the Pension Regulations for extending pensionary benefits to a member employee who retires before attaining the age of superannuation under such specific schemes. It has been, therefore, decided to provide the benefit of pro-rata pensionary benefits to members of Pension Fund who opt for voluntary retirement under specified scheme(s).

2. It is, therefore, necessary that the amendment may be made effective from 1st September, 2000 so that all employees who are members of the Pension Fund and have taken voluntary retirement under the scheme after completion of 15 years of service can draw the benefit of pension.

3. It is certified that no employee/officer of the United Bank of India* is likely to be affected adversely by the Notification being given retrospective effect.

DIPAK KUMAR BHATTACHARYYA
General Manager (Personnel)

(Name, Signature and Designation of Officer)

Foot Note :—The principal Regulations were notified in the Gazette of India (Extraordinary) on 29.09.1995# and subsequent amendment(s) to the above United Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995, were published in the Gazette as per details given below :

Sr. No.	Notification No.	Date
* .	Name of the Bank to be mentioned.	
\$	Name of the Act to be mentioned.	
#	Date to be mentioned.	

**UCO BANK
HEAD OFFICE
PERSONNEL DEPARTMENT
12 Old Court House Street
Kolkata-700001.**

Kolkata, the 8th January 2002

*No. ODAR/1/2002.—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of UCO Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend further the UCO Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

- (1) These Regulations may be called UCO Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 2002.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the UCO Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976,

- (a) for regulation 18, the following regulation shall be substituted, namely :—

"18 Review :

Notwithstanding anything contained in these regulations, the Reviewing Authority may at any time within six months from the date of the final order, either on his

own motion or otherwise review the said order, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come or has been brought to his notice and pass such orders thereon as it may deem fit :

Provided that—

- (i) if any enhanced penalty, which the Reviewing Authority proposes to impose, is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) or (j) of regulation 4 and an enquiry as provided under regulation 6 has not already been held in the case, the Reviewing

Authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the enquiry and pass such orders as it may deem proper;

- (ii) if the Reviewing Authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held in accordance with the provisions of regulation 6, the Reviewing Authority shall give show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass an order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee.

(b) for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

No.	Scale/Category of Post	Disciplinary Authority	Appellate Authority	Reviewing Authority
1	2	3	4	5
1(a)	Officers in Junior Management Grade/Scale-I & Middle Management Grade/Scale-II and Officers in Grade 'D' & 'C' posted at Branches/Offices under the jurisdiction of Regional Offices headed by Regional Manager in Senior Management Grade/Scale-IV/Grade 'A' including officers sent on deputation.	Regional Manager	General Manager	Executive Director
(b)	Officers in Middle Management Grade/Scale-III and Officers in Grade 'B' posted at Branches/Offices under the jurisdiction of Regional Offices headed by Regional Manager in Senior Management Grade/Scale-IV/Grade 'A' including officers sent on deputation.	Assistant General Manager attached to the office of respective General Manager (Operations)	General Manager	Executive Director
2.	Officers in Junior Management Grade/Scale-I & Middle Management Grade/Scale-II/III and Officers in Grade 'D', 'C' & 'B' :-			
(a)	Posted at Branches/Offices under the jurisdiction of Regional Offices headed by Asstt. General Manager/Deputy General Manager including officers sent on deputation.	Assistant General Manager/Deputy General Manager in charge of Region.	General Manager	Executive Director
(b)	Posted at Branches/Offices under the jurisdiction of Regional Offices headed by General Manager including officers sent on deputation.	Assistant General Manager of Regional Offices headed by General Manager	General Manager	Executive Director
(c)	Posted at Head Office or any other office/establishment coming under the direct control of Head Office including the Regional Rural Banks/Regional Training Centres/Central Staff College and officers sent on deputation and Inspecting Officers.	Deputy General Manager (Personnel)	General Manager (Personnel)	Executive Director

1	2	3	4	5
3.	Officers in Senior Management Grade/Scale-IV and other officers in Grade 'A' and officers in Senior Management Grade/Scale-V/Asstt. General Manager including officers posted in the Regional Rural Banks and officers sent on deputation.	General Manager	Executive Director or in his absence Chairman & Managing Director	Chairman & Managing Director or in his absence/ in case he is functioning as Appellate Authority, the Committee of the Board.
4.	Officers in Top Executive Grade/Scale-VI/Deputy General Manager.	Executive Director or in his absence Chairman & Managing Director.	Chairman & Managing Director or in his absence/in case he is functioning as Disciplinary Authority, the Committee of the Board.	Board.
5.	Officers in Top Executive Grade/Scale-VII/General Manager.	Chairman & Managing Director or in his absence Executive Director.	Committee of the Board.	Board.

KALYAN MUKHERJEE
General Manager
(Personnel).

Foot Note :—Earlier amendments to the above Regulations and Schedule to UCO Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) regulations, 1976 were published in the Gazette as per details given below :

S No.	Notification No.	Dated
1.	ODAR/1/97	22.8.1997

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA
HEAD OFFICE

Mumbai-400005, the 11th January 2002

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA GENERAL REGULATIONS (AMENDMENT) REGULATIONS, 2002

In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Board of Directors of Export-Import Bank of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the Export-Import Bank of India General Regulations, 1982, namely :—

1. Short title and commencement—

- (1) These Regulations may be called the Export-Import Bank of India General Regulations (Amendment) Regulations, 2002.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette except as otherwise mentioned below.

2. In Regulation 3 of the Export-Import Bank of India General Regulations, 1982, (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), for sub-Regulations (i), (iv) and (vii), the following sub-Regulations shall be substituted, namely :—

- 3 (i) Meetings of the Board shall be convened by the Chairman or the Managing Director or, in their absence, by an Executive Director of the Exim Bank nominated by the Chairman or Managing Director in this behalf, at least four times in each calendar year and at least once in every three months.

(iv) At least two weeks' notice shall ordinarily be given of each meeting of the Board and such notice shall be sent to every director at his registered address. Should it be found necessary to convene an emergency meeting, a notice of at least three days shall be given to every director in India to enable him to attend. Provided that in exceptional circumstances, when such shorter notice cannot be given, the Chairman or the Managing Director may act on behalf of the Board and report at the next meeting of the Board.

(vii) A copy of the minutes of each meeting of the Board shall be circulated within fifteen days after the date of the meeting for the information of the directors and shall be signed by the person presiding at that or the next succeeding meeting.

3. In Regulation 5 of the Principal Regulations, for sub-Regulation (i), the following sub-Regulation shall be substituted, namely :—

5, (i) Meetings of the Management Committee may be convened by the Chairman or the Managing Director, or in their absence by an Executive Director of the Exim Bank nominated by the Chairman or Managing Director in this behalf from time to time at the Head Office of the Exim Bank, or at such other place in India as may be specified in the notice convening the meetings, so however that at least six meetings shall be convened in each calendar year. At least two weeks' notice shall ordinarily be given of each meeting of the Management Committee. Should

it be found necessary to convene an emergency meeting, a notice of at least three days shall be given for such meeting. Provided that in exceptional circumstances, when even such shorter notice cannot be given, the Chairman or the Managing Director may act on behalf of the Management Committee and report at the next meeting of the Management Committee.

4. In Regulation 7 of the Principal Regulations, for sub-Regulations (2) and (3), the following sub-Regulations shall be substituted, namely :—

7. (2) Meetings of any such committee may be convened from time to time at the Head Office of the Exim Bank, or at such other place in India as may be specified in the notice convening the meeting/s. At least two weeks' notice shall ordinarily be given of each meeting of such committee. Should it be found necessary to convene an emergency meeting, a notice of at least three days shall be given for such meeting. Provided that in exceptional circumstances when even such shorter notice cannot be given, the Chairman or the Managing Director, if he/she is a member of such committee, and if not, then the Chairman of the committee may act on behalf of such committee and report at the next meeting of the committee.

(3) The quorum for the meeting of any such Committee shall be one third of its strength (any fraction contained in that one-third being rounded off as one) or three members, whichever is higher.

5. (a) In sub-Regulation (1) of Regulation 8 of the Principal regulations, the words and figure "Rs. 200" be replaced by the words and figure "Rs. 1,000/-" and the words and figure "Rs. 100" be replaced by the words and figure "Rs. 500/-" wherever appearing in the sub-Regulation.
- (b) The amendments mentioned in this Regulation 5 of the Export-Import Bank of India (Amendment) Regulations, 2002, shall be deemed to have come into force from May 9, 2000.
6. (a) In Regulation 14, in Sub-regulations (i) and (ii), for the words "a balance sheet as on 31st December of each year", the following words, namely, "a balance sheet as on the 31st March of each year or such other date in each year as the Central Government may, by notification in the Official Gazette specify" shall be substituted.
- (b) In Schedules I and II and in Schedules IA and IIA to the Principal Regulations, in the heading of the forms of Balance Sheet and Profit & Loss Account respectively, the date '31st December' shall be deleted.
- (c) In the form of Schedules to the Balance Sheet forming part of Schedule I to the Principal Regulations:
- (i) in the heading, the date "31st December" shall be deleted;

(ii) with respect to the reference of Schedule VII, after item 4, the following items shall be added as item 5, namely, "5. Others".

- (d) The amendments mentioned in this Regulation 6 of the Export-Import Bank of India (Amendment) Regulations, 2002, shall be deemed to have come into force from December 30, 1988.

Certified that Government of India have given approval to the above amendments in the Export-Import Bank of India General Regulations, 1982 vide their following letters :

Regulations 3, 5 and 7—vide Letter No. 14(14)/95-IF.I(V.II) dated 16.1.2001.

Regulation 8—vide Letter No. 26/2/2000-B.O-1 dated 9.5.2000.

Regulation 14 and Schedules—vide Letter No 14(19)/IF.I/89 dated 30.3.1989.

R.M.V. RAMAN
Executive Director.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 21st January 2002

No. 13-CA (EXAM)/M/2002.—In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Foundation, Intermediate and Final Examinations will be held on the dates given below at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre :—

Foundation Examination : (As per syllabus contained in Para 1A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988)
7th, 8th, 9th and 10th May, 2002
(Morning Session—8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

Intermediate Examination : (As per syllabus contained in Para 2A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988)

Group-I : 2nd, 3rd and 4th May, 2002
Group-II : 6th, 7th and 8th May, 2002
(Afternoon Session—12.30 p.m. to 3.30 p.m.) (IST)

Final Examination : (As per syllabus contained in Para 3A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988)

Group-I : 2nd, 3rd, 4th and 6th May, 2002
Group-II : 7th, 8th, 9th and 10th May, 2002
(Morning Session—8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

EXAMINATION CENTRES :

(i) CENTRES IN INDIA :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. AGRA | 38. JAIPUR |
| 2. AHMEDABAD | 39. JALGAON |
| 3. AJMER | 40. JAMMU |
| 4. ALLAHABAD | 41. JAMSHEDPUR |
| 5. ALLEPPEY | 42. JODHPUR |
| 6. ALWAR | 43. KANPUR |
| 7. AMBALA | 44. KOLHAPUR |
| 8. AMRITSAR | 45. KOLKATA |
| 9. ASANSOL | 46. KOTA |
| 10. AURANGABAD | 47. KOTTAYAM |
| 11. BANGALORE | 48. LUCKNOW |
| 12. BAREILLY | 49. LUDHIANA |
| 13. BARODA | 50. MADURAI |
| 14. BELGAUM | 51. MANGALORE |
| 15. BHILWARA | 52. MATHURA |
| 16. BHOPAL | 53. MEERUT |
| 17. BHUBANESWAR | 54. MORADABAD |
| 18. BIKANER | 55. MUMBAI |
| 19. CALICUT | 56. MUZAFFARNAGAR |
| 20. CHANDIGARH | 57. MYSORE |
| 21. CHENNAI | 58. NAGPUR |
| 22. COIMBATORE | 59. NASIK |
| 23. CUTTACK | 60. NOIDA |
| 24. DEHRADUN | 61. PALGHAT |
| 25. DELHI/NEW DELHI | 62. PANIPAT |
| 26. DHANBAD | 63. PATIALA |
| 27. DURG | 64. PATNA |
| 28. ERNAKULAM | 65. PUNE |
| 29. FARIDABAD | 66. RAIPUR |
| 30. GAUHATI | 67. RAJKOT |
| 31. GHAZIABAD | 68. RANCHI |
| 32. GOA | 69. ROHTAK |
| 33. GWALIOR | 70. SAHARANPUR |
| 34. HISAR | 71. SALEM |
| 35. HYDERABAD | 72. SHIMLA |
| 36. INDORE | 73. SILIGURI |
| 37. JABALPUR | 74. SOLAPUR |
| | 75. SURAT |
| | 76. TIRUCHIRAPALLI |

77. TRICHUR
78. TRIVANDRUM
79. UDAIPUR
80. UDUPI
81. UJJAIN
82. VARANASI
83. VIJAYAWADA
84. VISAKHAPATNAM
85. YAMUNANAGAR

(ii) OVERSEAS CENTRES :

- (1) DUBAI (UAE) (2) KATHMANDU (NEPAL)

Payment of fees for the examinations should be made only by Demand Draft. The Demand Drafts may be of any Nationalised Bank and should be drawn in favour of the Secretary. The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only.

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

Applications for admission to these examinations are required to be made on the relevant prescribed form, copies of which may be obtained from the Additional Secretary (SG) (Examinations). The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi-110002 on payment of Rs. 50/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained therefrom on cash payment on or from 4th February, 2002.

Applications together with the necessary certificates and the prescribed fee by Demand Draft of any Nationalised Bank may be sent so as to reach the Additional Secretary (SG) (Examinations) at New Delhi not later than 28th February, 2002. However, applications will also be received direct by Delhi Office after 28th February, 2002 and upto 7th March, 2002 with late fee of Rs. 200/-. Applications received after 7th March, 2002 shall not be entertained under any circumstances. Applications will also be received by hand delivery at the office of Institute at New Delhi and at the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Pune and Jaipur upto 28th February, 2002.

Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility.

The fees payable for the various examinations are as under :—

FOUNDATION EXAMINATION :

Fee Rs. 700/-

INTERMEDIATE EXAMINATION :

For Both the Groups Rs. 750/-
 For One of the Groups Rs. 450/-
 For *Unit candidates Rs. 450/-

(irrespective of number of papers contained in a Unit)

* The expression 'UNIT' is a set of papers in which candidates, who have passed in any one but not in both the groups of the Intermediate Examination prior to the commencement of examination under the syllabus specified in paragraph 2A of Schedule 'B' to Chartered Accountants Regulations, 1988, are required to appear and pass.

FINAL EXAMINATION :

For Both the Groups Rs. 900/-

For One of the Groups Only Rs. 550/-

For** Unit candidates Rs. 600/-

(irrespective of number of papers contained in a Unit)

** The expression 'UNIT' is a set of papers in which candidates, who have passed in any one or more but not in all the groups of the Final Examination under the syllabus specified in Schedule 'B' or 'BB' of Chartered Accountants regulations, 1964, prior to November 1986 are required to appear in and pass together in the remaining corresponding papers under the new syllabus as per para 3A of Schedule 'B' to Chartered Accountants Regulations, 1988.

Candidates of Foundation, Intermediate and Final Examinations opting for Dubai Centre are required to remit US \$ 150 or its equivalent Indian Currency irrespective of whether the candidates appear in a single paper, in a group, in a unit or in both the groups.

Candidates of Foundation, Intermediate and Final Examinations opting for Kathmandu centre are required to remit Indian Rs. 1200/- or its equivalent relevant foreign currency irrespective of whether the candidates appear in a single paper, in a group, in a unit or in both the groups.

OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI :

Candidates of Foundation, Intermediate and Final Examinations will be allowed to use the Hindi medium for answering papers. Detailed information will be found printed in the Information sheets attached to the relevant application form.

JAGDAMBA PRASAD
 Additional Secretary (S.G.) (Exams.)

MINISTRY OF LABOUREMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

New Delhi-110066, the 25th January 2002

ADDENDUM

No. HRD/2(4)/83-Vol.II :—In exercise of powers conferred by Sub-section 7(a) of Section 5(D) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board of Trustees hereby makes the following Initial Fitment insertions in Rule 7-Initial Constitution of the EPFO Steno Service Rules, 1998 :

To be added after Rule 7(b) :

INITIAL FITMENT :

(i) All Private Secretaries appointed under Initial Constitution clause shall be fitted in the cadre and deemed to have been appointed as Private Secretary w.e.f. 2.1.1999.

(ii) Personal Assistants appointed in the grade shall be promoted to the post of Private Secretary against seniority quota posts subject to seniority-cum-selection in relaxation of recruitment rules.

(iii) All remaining vacant posts of Private Secretary shall be filled by conducting a Special Screening test.

(iv) The test will be qualifying one.

(v) Personal Assistants as well as Stenographers (erstwhile Stenographer-III and Stenographer-II(Adhoc)) who have rendered regular service of 10 years or more as Stenographer shall be eligible to appear in the test in relaxation of recruitment rules. On qualifying the test they will be promoted enbloc in order of seniority-cum-selection basis.

(vi) The above relaxations shall be allowed as one time measure.

AJAI SINGH IRS

Central Provident Fund Commissioner

To be inserted after Rule 7(d) :

INITIAL FITMENT :

(i) Unfilled posts of Personal Assistant meant for Direct Recruitment and Examination Quota shall be filled through a Special Screening Test as one time measure.

(ii) All Stenographers (including erstwhile Stenographer Grade-II (Adhoc) and Stenographer Grade-III) having rendered three years or more regular service in the grade shall be eligible to appear in a Special Screening Test.

(iii) The posts shall be filled by seniority-cum-selection method.

(iv) The test will be qualifying one.

The above Fitment Clauses will come into force with effect from the date of notification in the official Gazette except as stated in the Initial Fitment sub-clause (i) made under Rule 7(b) of these EPFO Stenographer Service Rules, 1998.

AJAI SINGH IRS

Central Provident Fund Commissioner

